

को बताया गया है।

कृषि भवन में बृहस्पतिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने यह पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका में खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण के क्रियान्वयन के लिए व्यवस्थित रूप से मार्गदर्शन किया गया है और यह पुस्तिका खाद्य सब्सिडी के

नकद अंतरण में भारत के नियमों, विनियमों और अनुभव तथा नकद आधारित हस्तांतरण से संबंधित विश्व खाद्य कार्यक्रम के वैश्विक अनुभव पर आधारित है। इस दौरान सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग रविकांत और विश्व खाद्य कार्यक्रम

हस्तांतरण का क्रियान्वयन कर रहे हैं अथवा क्रियान्वयन करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाभों की लक्षित सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण की स्कीम का क्रियान्वयन इस सरकार की महत्वपूर्ण पहलों में से एक है।



## RELIGARE ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office : 2nd Floor, Rajlok Building, 24, Nehru Place, New Delhi -110019  
CIN: L74899DL1984PLC146935  
Phone: 91-11-46272400, Fax No: 91-11-46272447  
Website: www.religare.com, E-mail: investorservices@religare.com

### Statement of Standalone for the Quarter and Year Ended March 31, 2018 and Consolidated Audited Financial Results for the Year Ended March 31, 2018

(Rs. in lakhs)

Particulars	Standalone Results				Consolidated Results	
	Quarter Ended 31/03/2018	Quarter Ended 31/03/2017	Year to Date 31/3/2018	Year to Date 31/3/2017	Year to Date 31/3/2018	Year to Date 31/3/2017
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1 Total Income from Operations	33.26	175.07	730.06	3,459.15	258,675.68	377,175.95
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	(7,147.54)	(4,335.62)	(11,732.99)	(14,711.19)	(157,785.18)	30,551.94
3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items)	(7,147.54)	(4,949.72)	(11,732.99)	(15,825.29)	(157,785.18)	(13,640.34)
4 Net Profit/(Loss) for the period after Taxes, Minority interest and Share of Profit / (Loss) of Associates	(6,432.86)	(5,058.58)	(11,018.29)	(15,924.02)	(119,250.04)	(17,427.36)
5 Equity Share Capital (Paid up)	17,845.52	17,833.45	17,845.52	17,833.45	17,845.52	17,833.45
6 Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year			212,326.36	167,691.52	147,968.88	254,686.40
7 Earnings Per Share before and after extraordinary items (of Rs 10/- each, fully paid up) (for continuing and discontinuing operations)						
a. Basic EPS (Rs)	(3.61)	(2.84)	(6.19)	(8.94)	(66.84)	(9.79)
b. Diluted EPS (Rs)	(3.61)	(2.84)	(6.19)	(8.94)	(66.84)	(9.79)

(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results is available on the Company's website www.religare.com and Stock Exchanges' website www.nseindia.com and www.bseindia.com.

(2) Principal Bench of Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi ("NCLT"), vide its order dated December 08, 2017, approved the Composite Scheme of Arrangement between Religare Securities Limited (excluding broking business which has been demerged into Religare Broking Limited, a wholly owned subsidiary of the Company), Religare Commodity Broking Private Limited, RGAM Investment Advisers Private Limited, Religare Venture Capital Limited, Religare Arts Investment Management Limited, Religare Capital Finance Limited, RGAM Capital India Limited, Religare Investment Advisers Limited, Religare Support Services Limited, Religare Arts Initiative Limited, Religare Capital Markets (India) Limited, Religare Broking Limited and Religare Enterprises Limited. Certified copy of the NCLT Order has been filed with Registrar of Companies on December 29, 2017. Appointed date of Scheme is April 1, 2016 and effective date of scheme is December 29, 2017.

The effect of the Scheme is considered during the quarter and year ended March 31, 2018. However, figures for the corresponding quarter and year ended March 31, 2017 have not been reworked and restated. Accordingly, the results are not fully comparable.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-  
Krishnan Subramanian  
Director - Finance

Place: Gurugram  
Date: May 30, 2018